



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022024-252258
CG-DL-E-20022024-252258

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945

No. 106]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आयुक्त (प्रणाली), दिल्ली विकास प्राधिकरण 2011 (नवसृजित पद) के भर्ती विनियमों का उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण में आयुक्त (प्रणाली) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, आयुक्त (प्रणाली), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर -पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **पद पर नियुक्ति का अनुमोदन** – इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।

5. **निरर्हता - वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर के, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आयुक्त (प्रणाली)	01* (2024) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-‘क’	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	समेकित विधि द्वारा – प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>समेकित विधि द्वारा - प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या प्रोन्नति</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या राष्ट्रीय सूचना केंद्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में कार्यरत अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद; या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 (रु. 78,800-2,09,200/ रुपये) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले: -</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री;</p> <p>(ii) सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में पंद्रह वर्ष का अनुभव और मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1:- विभागीय निदेशक (प्रणाली) वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78800-209200) में जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचारार्थ विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव हो, का बाहरी अभ्यर्थी के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया</p>	<p>खोज-सह-चयन समिति में सिम्मलित सदस्य इस प्रकार हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपाध्यक्ष - अध्यक्ष; 2. इंजीनियर सदस्य - सदस्य; 3. प्रधान आयुक्त (प्रणाली) - सदस्य; 4. उपाध्यक्ष, डीडीए द्वारा नामित दो बाहरी आईटी विशेषज्ञ - सदस्य; 5. उपाध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि - सदस्य। 	<p>ल लागू नहीं होता।</p>

<p>जाता है; इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अंशकालिक संविदा सहित), जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (अंशकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा. सं. के-11011/01/2022-डीडी.II]

सुरेंद्रकुमार बागडे, अपर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2024

G.S.R. 117(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), and in supersession of the Recruitment Regulations of Commissioner (Systems), Delhi Development Authority, 2011 (newly created post), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby makes the following rules to regulate the service conditions in respect of the post of Commissioner (Systems) in the Delhi Development Authority, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Development Authority, Commissioner (Systems), Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Approval of appointment to post.- No appointment shall be made without obtaining prior approval of the Central Government under these rules.

5. Disqualification.- No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commissioner (Systems).	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A'.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By composite method - deputation (including short term contract) or promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>By composite method [deputation (including short-term contract) or by promotion]:</p> <p>Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or National Information Centre or recognised University or recognised research institute,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing appropriate educational qualifications and experience,-</p> <p>(i) Engineering degree in Computer Science or Information Technology or Computer Engineering or Electronics from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) with fifteen years experience in the field of System Analysis Design,</p>	<p>Search-cum-Selection Committee consisting of:</p> <p>1. Vice Chairman - Chairman;</p> <p>2. Engineer Member - Member ;</p> <p>3. Principal Commissioner (Systems) - Member;</p> <p>4. Two outside Information Technology Experts to be nominated by Vice Chairman, Delhi Development Authority - Members;</p> <p>5. Representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribe to be nominated by Vice Chairman - Member.</p>	Not applicable.

<p>Software Development and Implementation System and Network Administration with at least two years in Managing Information System.</p> <p>Note 1: The departmental Director (System) in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five year of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsider. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. K-11011/01/2022-DD.II]

SURENDRAKUMAR BAGDE, Addl. Secy.